



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 542 राँची ,सोमवार 5 कार्तिक 1936 (श०)

27 अक्टूबर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर, 2014

संख्या-15/प्र०ई०पु०-06-08/2014 का.-10234--झारखण्ड जिला अधिनियम, 2001 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल गोड्डा जिलान्तर्गत 'महागामा' अनुमंडल का सृजन निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-4 में अंकित प्रखंडों के क्षेत्र के साथ एवं स्तंभ-5 में अंकित मुख्यालय निर्धारित करते हुए करते हैं :-

क्र० सं०	जिला	नवसृजित अनुमण्डल का नाम	संबंधित प्रखण्डों के नाम	नवसृजित अनुमण्डलों का मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	गोड्डा	महागामा	महागामा, ठाकुरगंगटी, मेहरमा एवं बोआरीजोर	महागामा

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।
